



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 590) पटना, शुक्रवार, 22 मई 2015

सं0 28/डा०से०-06/2011/4659-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

22 मई 2015

विषय:—बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 129 के लिए बी०टी०सी० फार्म-64 विहित करने के संबंध में।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम, 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम, 129 के संदर्भ में एक नया बी०टी०सी० फार्म-64 विहित किया जाता है। उन तमाम मामलों में जिनमें किसी विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा वस्तु/सेवा की बिक्री के समर्थन में कैशमेमो दिया जाना संभव नहीं है, उन मामलों में क्रेता कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र के द्वारा खरीद-सह-भुगतान प्रमाणपत्र बी०टी०सी० फार्म-64 में तैयार किया जायेगा। इस पर क्रेता, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा राशि प्राप्त करने वाले विक्रेता/सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर विहित स्थान पर होना आवश्यक है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनुलग्नक — (बी०टी०सी० फार्म-64)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच०आर० श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन)।

Bihar Treasury Code - 2011

बी0टी0सी0 फारम सं0-64

नियम-129

खरीद-सह-भुगतान प्रमाणपत्र

भाउचर नं0.....

दिनांक.....

कार्यालय/ऑगनवाडी केन्द्र का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री.....

से निम्नांकित विवरणी के अनुसार सामानों की खरीद की गई/सेवा प्राप्त की गई एवं उनके विरुद्ध विक्रेता/सेवा प्रदाता श्री/श्रीमती.....को राशि का भुगतान किया गया।

क्रमांक	वस्तु/सेवा का नाम	मात्रा	दर	राशि
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
			कुल राशि	

रूपये.....मात्र।

राजस्व
टिकट

भुगतान प्राप्तकर्ता (विक्रेता) का पूर्ण हस्ताक्षर

वस्तु/सेवा प्राप्तकर्ता एवं भुगतानकर्ता(क्रेता) का पूर्ण हस्ताक्षर

(1. 2. 3. 4.)
(ऑगनवाडी केन्द्र के मामले में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का पूर्ण हस्ताक्षर)

संख्यिकी सहायक/महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सत्यापित—

प्रमाणित किया जाता है कि—

1.ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित खुदरा विक्रेता से खरीद करने के कारण भाउचर प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है।

2.खुदरा एवं छोटा विक्रेता/सेवा प्रदाता होने के कारण उनके द्वारा कैशमेमो संधारित नहीं किया गया है तथा नजदीक में कोई बड़ा दूकान नहीं है।

3.सरकारी कार्य की महता को देखते हुए/पोषाहार कार्यक्रम को जारी रखने हेतु सामग्रियों की खरीद अत्यावश्यक है। इसलिए उक्त सामानों की खरीद वस्तुतः की गई है एवं उसके विरुद्ध हस्तलिखित भाउचर तैयार किया गया है। इस पर विक्रेता से राशि प्राप्ति रसीद ले लिया गया है।

4.प्राप्त सामग्रियों की प्रविष्टि कार्यालय में संधारित भंडार पंजी के पृष्ठ सं0.....क्रमांक.....पर दर्ज कर लिया गया है।

वरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

(नोट-ऑगनवाडी केन्द्र के लिए किराना सामान, मौसमी सब्जी, ईंधन, परिवहन, अंडा, सुबह का नाश्ता का अलग-अलग भाउचर तैयार किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में अवस्थित कार्यालयों के लिए सामान्यतः इस प्रपत्र का उपयोग नहीं किया जाय। यदि विक्रेता/सेवा प्रदाता निरक्षर हो तो उसके बाये अगूठे का निशान लिया जाय तथा वहाँ उसका पूर्ण नाम अवश्य लिख दिया जाय। 5000/रूपये या अधिक के भुगतान की स्थिति में राजस्व टिकट अवश्य चिपकाया जाय। जो लागू नहीं हो उसे काट दें।)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 590-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>